



AG Universal Limited

(Formerly Known as AG Universal Private Limited)

Regd. Office : Plot No. 2, 1st Floor, Arihant Nagar, Near Shivaji Park Metro Station,
West Punjabi Bagh, New Delhi-110026 (INDIA)

Date: 05.09.2024

To,

**The Manager,
Listing Compliance Department,
National Stock Exchange of India Limited**
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400051

Reference: ISIN – INE006N01012; Symbol – AGUL

Subject: Newspaper Advertisement – Confirming Dispatch of Notice of 16th Annual General Meeting (AGM) of the Company.

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”), we enclose the copies of following newspaper advertisements published on September 05, 2024, informing completion of dispatch of Notice of AGM along with the Annual Report of the Company for the F.Y. 2023-24 and e-voting information for AGM of the Company scheduled to be held on 27th September, 2024 at 02:00 P.M. (IST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means:

S. No.	Name of Newspaper(s)	Edition(s)
1	Business Standard	English
2	Rastriya Sahara	Hindi

The above information is also available on the website of the Company i.e. www.aguniversal.co.in.

This is for your information and dissemination.

Thanking you,
Yours faithfully,

For A G UNIVERSAL LIMITED

Amit Gupta
Digitally signed
by Amit Gupta
Date:
2024.09.05
11:17:27 +05'30'

Amit Gupta
Chairman-Cum-Managing Director
DIN: 00255618

Place: New Delhi

Encl- As above

SPL Industries Limited
CIN: L74899DL1991PLC062744
Regd. Office: 202, 2nd Floor, Vikramaditya Tower, Alaknanda Market, Kalkaji, New Delhi-110019 | Phone: 0129-4282375
E-mail: cs@spllimited.com, Website: www.spllimited.com

NOTICE OF THE 33RD ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting of the shareholders of SPL Industries Limited (CIN: L74899DL1991PLC062744) will be held on Saturday, September 28, 2024 through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), at 11:00 A.M., in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Listing Obligations and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015, read with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars") to transact the businesses, as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM at <https://emeetings.kfintech.com>

The company has already dispatched the Annual Report for the Financial Year 2023-24 along with the Notice convening AGM, through electronic mode to the shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant (DP)/Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA). The aforesaid documents are also available on the Company's website www.spllimited.com, website of exchange i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the website of the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. KFin Technologies Limited viz. <https://evoting.kfintech.com>. Additionally, the members who wish to receive physical copy of the Annual Report 2023-24 may specifically request the same by sending an email to cs@spllimited.com

In compliance with the Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to inform that it is offering e-voting facility to all the Shareholders of the Company in respect of all the items to be transacted at the said Meeting. The company has engaged the services of KFin Technologies Limited ("KFin") as the authorized agency to provide e-voting facility. The e-voting period shall commence on September 24, 2024 at 10:00 A.M. and shall end on September 27, 2024 at 05:00 P.M. A person whose name appears in the register of members/beneficial owners as on cutoff date i.e. Saturday, September 21, 2024, may cast their vote electronically. The e-voting module will be disabled on September 27, 2024 after 05:00 P.M.

The facility for voting through electric means will also be available at the AGM and only those members, who are present at the AGM and have not cast their vote on the resolution through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, will be eligible to vote during the AGM.

A person who become member of the company after dispatch of Notice of the AGM and holding shares as on cutoff date, may obtain the user ID and password by following the detailed procedure as provided in the Notice of AGM which is available on Company's website and KFin's website.

In case of any query regarding remote e-voting or technical assistance for VC/OAVM participation, members may contact Mr. Suresh Babu, an official from KFin Technologies Limited at the toll free No. 1800-345-4001 or write him at suresh.d@kfintech.com.

Mr. Sachin Agarwal, Practicing Company Secretary Partner of Agarwal S. & Associates, Company Secretaries, Delhi has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM.

Members who have not registered their email addresses, so far, are also requested to register their email address in respect of electronic holdings with depository through their concerned Depository Participants. Members who hold the shares in physical form are requested to get their email id registered with KFin Technologies Limited, Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company.

For, SPL Industries Limited
Sd/-
Vishal Srivastava
Company Secretary

Place - Faridabad
Date - September 04, 2024

AG Universal Limited
(Formerly Known as AG Universal Private Limited)
Regd. Office: House No. 2, First Floor, Arhant Nagar, Shivaji Park, New Delhi, 110026 (INDIA)

NOTICE OF THE 16TH ANNUAL GENERAL MEETING & E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, September 27, 2024 at 02:00 PM (IST) through Video Conferencing ("VC" / Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the business set out in the Notice of AGM.

- In accordance with all the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), the electronic dispatch of Notice of AGM along with Annual Report has been completed through electronic mode to members whose email address are registered with the Company/Depositories by 5th September, 2024.
- The Notice of the 16th AGM and Annual Report of the Company for the financial year 2023-2024 is also available on the website of the Company at www.aguniversal.co.in and also on website of e-voting agency at www.evoting.nsd.com.
- Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the notice of the AGM. Members attending through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
- All the Members are informed that:
 - The remote e-voting shall commence on Monday, September 23, 2024 at 09:00 A.M. IST and conclude on Thursday, September 26, 2024 at 05:00 PM IST.
 - The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Friday, September 13, 2024.
 - The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from September 14, 2024 to September 26, 2024 (both days inclusive).
 - The facility for voting through electronic voting system shall also be made available during the AGM.
 - The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
 - Any person, who acquires shares of the Company and becomes members of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of cut-off date i.e. Friday, September 13, 2024 may obtain the login ID and password by sending a request at eservices.nsd.com. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
 - Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register the same with Depository Participant(s)/ LIPL or update their email addresses by writing to the Company at cs@aguniversal.co.in along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the Member, self-attested copy of the PAN card or any document in support of the address of the Member.
- The Board of Directors has appointed M/S Nayan Handa & Associates, Practicing Company Secretary (M. No. F11993) to act as the Scrutinizer, to scrutinize the entire voting and remote e-voting in a fair and transparent method.
- In case of any queries or issues regarding attending AGM & e-voting from the NSDL e-Voting System, you can write an email to evoting@nsdl.com or contact at 022 - 4886 7000.

For AG Universal Limited
Sd/-
Surbhi Gupta
Company Secretary & Compliance Officer

Date: 05.09.2024
Place: New Delhi

RAJNANDINI METAL LIMITED
CIN: L51109HR2010PLC040255
Registered Office: Plot No. 344, Sector 3 Phase II, IMT Bawal - 123501 Haryana (India)
Phone: 01284-264194; Email: info@rajnandinimetal.com;
Website: www.rajnandinimetal.com

NOTICE OF THE 14TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 14th (Fourteen) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Rajnandini Metal Limited ("the Company") will be held on Friday, September 27, 2024 at 01:30 p.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility only including e-voting/remote e-voting without the physical presence of the members at a common venue to transact the business as set out in the Notice of AGM in compliance with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020 and Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022, Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and all other relevant circulars issued from time to time (MCA Circulars) and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/HO/CFD/PO-D-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PO-D-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") (collectively referred to as relevant circulars). The deemed venue for the 14th AGM shall be the Registered Office of the Company.

In compliance with the relevant circulars, the Company has sent the Notice of the 14th AGM along with Explanatory Statement and Annual Report for the FY 2023-24 on September 3, 2024 through electronic mode only, to all the Members whose name appear in Register of Members as on August 30, 2024 and whose email addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent ("RTA")/Depository Participant(s). The Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 are also available on the website of the company www.rajnandinimetal.com under the head "Investors" and on the website of NSE at www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsd.com. Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only and such Members shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Members may further note that-

- The voting rights of the members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Friday, September 20, 2024. A person whose name is recorded in the Register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at the AGM and a person who is not a member as on the cut-off date should treat the Notice of AGM for information purpose only.
- The notice of AGM inter-alia includes the process and manner of remote e-voting/ e-voting and instructions for participation in the AGM.
- The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 20, 2024 to Friday, September 27, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company.
- The remote e-voting period commences on Tuesday, September 24, 2024 at 9:00 A.M. and ends on Thursday, September 26, 2024 at 05:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- Any person who has acquired shares and become members of the company after sending of AGM Notice in electronic form but before the cut-off date of September 20, 2024, may obtain their User ID and password for remote e-voting from the Company's RTA via e-mail at bssdelhi@bigshareonline.com or NSDL at evoting.nsd.com. However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote.
- The facility of e-voting will also be made available at the AGM on all the resolutions as set out in the Notice of 14th AGM.
- Those members, attending the AGM through VC/OAVM facility and who have not casted their vote on the Resolutions through Remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.
- A member may participate in the AGM after exercising his vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.
- Members who have not registered their email-id are requested to register their e-mail ID with the relevant Depository Participant(s). In case of any queries / difficulties in registering the e-mail address, Shareholders may write to Big Share Services Pvt. Ltd. at bssdelhi@bigshareonline.com.
- In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-Voting user manual available at the download section of www.evoting.nsd.com or call on 022-4886 7000 and 022-2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email - evoting@nsdl.co.in who will also address the grievances connected with voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at cs@rajnandinimetal.com.
- The Board of Directors has appointed Mr. Abhishek Jain of M/s. Abhishek J & Co., Practicing Company Secretaries (Membership No. FCS-11233), as the Scrutinizer for conducting remote e-voting in a fair and transparent manner.

The details of the said meeting are also available on the website of the Company www.rajnandinimetal.com and the website of NSE Limited (www.nseindia.com).

By order of the Board
For Rajnandini Metal Limited
Sd/-
Het Ram
Managing Director

Date- September 3, 2024
Place- Bawal

SHREE HARI CHEMICALS EXPORT LIMITED
Corporate Identification No. (CIN) - L99999MH1987PLC044942
Registered Office: A/8, MIDC, Mahad, Dist. Raigad-402309, Maharashtra
Corporate Office: 401/402, A-Wing, Oberoi Chambers, Opp. Sab TV, New Link Road, Andheri (West), Mumbai -400053
Tel: 02145-232177/233492/022-49634834 E-mail: info@shreeharichemicals.in
Website: www.shreeharichemicals.in

NOTICE

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Shree Hari Chemicals Export Limited (the "Company") will be held on Friday, September 27, 2024 at 01.00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") & Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular dated May 5, 2020 read with General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022 December 28, 2022 and September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars"). Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 05, 2023, and October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") to transact the business as mentioned in the 37th AGM Notice, without the physical presence of the Members at a common venue.

Pursuant to Section 101 of the Act read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 36 of the Listing Regulations, Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) and in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of 37th AGM along with the Annual Report 2023-24 have been sent on September 04, 2024 by email to those members whose email addresses are registered with the Company / Registrar and Share Transfer Agent / Depositories. The requirements of sending physical copy of the Notice of the 37th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circular. Members are hereby informed that the said Annual Report including AGM Notice is also available on the Company's website www.shreeharichemicals.in, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com respectively and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsd.com

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the Listing Regulations and SS-2, the Company is providing its members the e-voting facility to cast their votes on all the resolutions set out in the AGM Notice by using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (i.e. remote e-voting). The Company will also provide a facility of e-voting to members during the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting. The Company has entered into an arrangement with NSDL for providing the remote e-voting and e-voting during the AGM.

A person whose name appears on the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Friday, September 20, 2024 shall only be entitled to avail the remote e-voting facility or e-voting during the AGM.

The remote e-voting period will commence on Tuesday, September 24, 2024 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Thursday, September 26, 2024 at 5:00 p.m. (IST). During this period, the member(s) of the Company may cast their votes electronically on items mentioned in the AGM Notice. The remote e-voting shall be disabled for voting by NSDL on, September 26, 2024 at 5:00 p.m. (IST), and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolutions is cast by a member, any subsequent change shall not be allowed. The voting rights of the members shall be in proportion to their shares in paid-up share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Friday, September 20, 2024. The detailed instructions relating to remote e-voting and e-voting during the AGM are provided in the Notes forming part of the AGM Notice.

Only those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the 37th AGM. Members who have cast their vote through remote e-voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote on such resolutions again at the AGM.

Any person, who becomes a member of the Company after sending of the AGM Notice by email and holding shares as on Wednesday, September 20, 2024, may refer to the AGM Notice and obtain the login ID and password from NSDL by sending a request at evoting@nsdl.co.in. Members whose email id is not registered, may refer "Process for those shareholders whose email addresses are not registered with the Depositories/Company/RTA for obtaining login credentials for e-voting" as detailed in 37th AGM Notice.

Smt. Shalini Bhat (FCS No.: 6484) or failing her Shri Mohammad P. (FCS No. 10619) of M/s. Parikh & Associates, Practicing Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

In case of any queries or issues regarding attending AGM/e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evoting.nsd.com under help section or contact Mr. Abhijeet Gunjal, NSDL, at evoting@nsdl.co.in / Toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or Mr. Santosh Gamare, M/s Link Intime India Pvt. Ltd. Lt Tel. No. 022 - 49186000; Email id: rti.helpdesk@linkintime.co.in

By Order of the Board of Directors
Shree Hari Chemicals Export Limited
Sd/-
Bankesh Chandra Agrawal
Chairman & Managing Director
DIN: 00121080

Place: Mumbai
Date: September 05, 2024

DLF HOME DEVELOPERS LIMITED

Regd. Office: 2nd Floor, Arjun Marg, DLF Shopping Mall, DLF City, Phase-I, DLF QE, Gurugram - 122002 (Haryana), India.
CIN - U74899HR1995PLC082458, Website: www.dlf.in/DHDL
Tel.: +91-124-4334200, Email: corporateaffairs@dlf.in

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that M/s Orris Infrastructure Private Limited in collusion with M/s Acme Build Well Pvt. Ltd., M/s Crazy Land and Housing Pvt. Ltd., M/s Orris Land and Housing Pvt. Ltd., M/s Fortune Land and Housing Pvt. Ltd., M/s Incent Properties Pvt. Ltd., M/s Oscar Land and Housing Pvt. Ltd., M/s Salmon Land and Housing Pvt. Ltd., Mr. Amit Gupta, Mr. Vijay Gupta, Mrs. Kusum Gupta, Mr. Sumit Gupta and Ms. Shikha Gupta (hereinafter referred to as "Landowners") and officials of Union Bank of India, Sikanderpur Branch, A-2/8, Qutub Plaza Enclave, DLF Phase 1, Sikanderpur, Gurugram-122002 have fraudulently taken away original Sale Deeds pertaining to land measuring 40.075 acres situated in Hayatpur village, Tehsil and District Gurugram (Sector 88 and 89), Haryana (detailed herein below) held in joint custody in the bank lockers of Union Bank of India, Sikanderpur Branch, Gurugram, to be operated jointly with M/s DLF Home Developers Ltd. under the garb of and in violation of terms and conditions of Arbitral Award dated 15.07.2024 and amended on 30.08.2024 passed by Honorable Mr. Justice Deepak Verma (Retired) in arbitration proceedings between the aforesaid entities/individuals and M/s DLF Home Developers Ltd., having its registered office at 2nd Floor, Arjun Marg, DLF Shopping Mall, DLF City, Phase-I, Gurugram-122002:-

LAND DETAILS OF LANDOWNERS IN VILLAGE HAYATPUR

Sr. No.	Land Owner	Area	Land Details
1.	M/s Acme Build Well Pvt. Ltd.	16 Kanals 1 Marla	Rectangle No. 20, Killa No. 24 (4-1), Rectangle No. 21 Killa No. 4/1 (4-0), 7(8-0) field 3 area admeasuring 16 Kanals 1 Marla
2.	M/s Acme Build Well Pvt. Ltd.	17 Kanals 12 Marlas	Rectangle No. 18, Killa No. 3/7(12) & Rectangle No. 21 Killa No. 9/2(2-0), 10(8-0) Field 3 Area Admeasuring 17 Kanals 12 Marlas
3.	M/s Acme Build Well Pvt. Ltd.	29 Kanals 18 Marlas	Rectangle No. 19, Killa No. 14/1(6-15), 15/2(5-6), 16/2/1/1(3-9), 16/2/1(2-8) Rectangle No. 20 Killa No. 21 (8-0), 22/1(4-0) Field 6 Area admeasuring 29 Kanals 18 Marlas
4.	M/s Acme Build Well Pvt. Ltd.	4 Kanals 0 Marla	Rectangle No. 18, Killa No. 5/2(2-0), 6/1(2-0) Field 2 Area admeasuring 4 Kanals 0 Marla
5.	M/s Acme Build Well Pvt. Ltd.	7 Kanals 0 Marla	Rectangle No. 18, Killa No. 4/1(7-0) field 1 area admeasuring 7 Kanals 0 Marlas
6.	M/s Acme Build Well Pvt. Ltd.	4 Kanals 0 Marla	Rectangle No. 21, Killa No. 9/1/2(4-0) field 1 area admeasuring 4 kanals 0 marlas
7.	M/s Acme Build Well Pvt. Ltd.	7 Kanals 0 Marla	Rectangle No. 18, Killa No. 4/2(1-0), 5/1(6-0) Field 2 area admeasuring 7 Kanals 0 Marlas
8.	M/s Acme Build Well Pvt. Ltd.	10 Kanals 0 Marla	Rectangle No. 18, Killa No. 9/1(7-11), 10/2(2-9) Field 2 area admeasuring 10 Kanals 0 Marlas
9.	M/s Acme Build Well Pvt. Ltd.	7 Kanals 2 Marlas	Rectangle No. 21, Killa No. 2/1(3-2) & Rectangle No. 20 Killa No. 22/2(4-0) field 2 area 7 Kanals 2 Marlas
10.	M/s Acme Build Well Pvt. Ltd.	6 Kanals 18 Marlas	Rectangle No. 21 Killa No. 2/2(4-18), 9/1/1(2-0) field 2 area admeasuring 6 kanals 18 Marlas
11.	M/s Acme Build Well Pvt. Ltd.	18 Kanals 0 Marla	Rectangle No. 18 Killa No. 6/2(6-0), 7/1(4-0) & Rectangle No. 21 Killa No. 1(8-0) Field 3 Area Admeasuring 18 Kanals 0 Marla
12.	M/s Crazy Land & Housing Pvt. Ltd.	8 Kanals 0 Marla	Rectangle No. 27 Killa No. 1(8-0) Field 1 Area Admeasuring 8 Kanals 0 Marla
13.	M/s Orris Land & Housing Pvt. Ltd.	19 Kanals 7 Marla	Rectangle No. 18, Killa No. 15(8-0) & Rectangle No. 20 Killa No. 23 (7-18) & Rectangle No. 21 Killa No. 3(8-0), 8(8-0), 11(8-0), 12(8-0), 13(8-0), 19/1(4-0), 20(8-0) field 9 area measuring 67 Kanals 18 Marlas to the extent of 387/1358 share i.e. 19 Kanals 7 Marlas
14.	M/s Orris Land & Housing Pvt. Ltd.	11 Kanals 7 Marlas	Rectangle No. 18, Killa No. 15(8-0) & Rectangle No. 20 Killa No. 23 (7-18) & Rectangle No. 21, Killa No. 3(8-0), 8(8-0), 11(8-0), 12(8-0), 13(8-0), 19/1(4-0), 20(8-0) field 9 area measuring 67 Kanals 18 Marlas to the extent of 227/1358 share i.e. 11 Kanals 7 Marlas.
15.	M/s Orris Land & Housing Pvt. Ltd.	35 Kanals 12 Marlas	Rectangle No. 19, Killa No. 16/2/2/2 (0-16), 17(8-0), 24(8-0), 25(8-0) & Rectangle No. 20 Killa No. 19/2(6-13), 20(8-0) field 6 area measuring 39 Kanals 9 Marlas to the extent of 8/9 share i.e. 35 Kanals 1.32 Marla and Rectangle No. 19, Killa No. 14/2(0-9), 16/2/2/1/2(0-8), 16/2/2/2/1(0-8) field 3 area measuring 1 Kanal 5 Marlas to the extent of 4/9 share i.e. 0 Kanal 11.12 Marlas total area admeasuring 35 Kanals 12 Marlas
16.	M/s Orris Land & Housing Pvt. Ltd.	6 Kanals 5 Marlas	Rectangle No. 18 Killa No. 15(8-0) and Rectangle No. 20 Killa No. 23(7-18) and Rectangle No. 21 Killa No. 3(8-0), 8(8-0), 11(8-0), 12(8-0), 13(8-0), 19/1(4-0), 20(8-0) field 9 area measuring 67 Kanals 18 Marlas to the extent of 125/1358 share i.e. 6 Kanals 5 Marlas
17.	M/s Orris Land & Housing Pvt. Ltd.	25 Kanals 13 Marlas	Rectangle No. 18 Killa No. 15(8-0) and Rectangle No. 20 Killa No. 23(7-18) and Rectangle No. 21 Killa No. 3(8-0), 8(8-0), 11(8-0), 12(8-0), 13(8-0), 19/1(4-0), 20(8-0) field 9 area measuring 67 Kanals 18 Marlas to the extent of 513/1358 share i.e. 25 Kanals 13 Marlas
18.	M/s Fortune Land & Housing Pvt. Ltd.	8 Kanals 0 Marla	Rectangle No. 27 Killa No. 19(8-0), field 1 area measuring 8 Kanals 0 Marla
19.	M/s Incent Properties Pvt. Ltd.	45 Kanals 7 Marlas	Rectangle No. 18 Killa No. 12/1/1(2-0), 12/2/1/1(4-9/2(0-9), 10/3(1-11) Field 4 Area Measuring 8 Kanals 4 Marlas Salam, Rectangle No. 27 Killa No. 2/2(4-0) Salam And Rectangle No. 18 Killa No. 12/1/1/2(0-9), 12/2/1(2(0-18) Field 2 Area Measuring 1 Kanal 7 Marlas Salam And Rectangle No. 27 Killa No. 10/2(3-16) 11(8-0) And Rectangle No. 28 Killa No. 15(8-0), 16(8-0) Field 4 Area Measuring 27 Kanals 16 Marlas Salam And Rectangle No. 27 Killa No. 2/1(4-0) Salam Total Area Admeasuring 45 Kanals 7 Marlas
20.	M/s Oscar Land & Housing Pvt. Ltd.	10 Kanals 0 Marlas	Rectangle No. 18 Killa No. 1(8-0), 2(8-0), 10/1(4-0), Field 3 Area Measuring 20 Kanals 0 Marla to the extent of 1/3 share i.e. 10 Kanals 0 Marla
21.	M/s Salmon Land & Housing Pvt. Ltd.	19 Kanals 12 Marlas	Rectangle No. 18 Killa No. 7/2(4-0), 8(7-12), 14(8-0) field 3 area admeasuring 19 Kanals 12 Marlas
22.	Amit Gupta S/o Vijay Gupta R/o C-3/260 Janakpuri, New Delhi	0 Kanal 13 Marlas	Rectangle No. 18 Killa No. 15(8-0), Rectangle No. 20 Killa No. 23(7-18) and Rectangle No. 21 Killa No. 3 (8-0), 8(8-0), 11(8-0), 12(8-0), 13(8-0), 19/1(4-0), 20(8-0) field 9 area measuring 67 Kanals 18 Marlas to the extent of 16/1649 share i.e. 0 Kanal 13 Marlas
23.	Amit Gupta S/o Vijay Gupta R/o C-3/260 Janakpuri, New Delhi	3 Kanals 5 Marlas	Rectangle No. 18 Killa No. 15(8-0) and Rectangle No. 20, Killa No. 23(7-18) and Rectangle No. 21 Killa No. 3(8-0) 8(8-0), 11(8-0), 12(8-0), 13(8-0), 19/1(4-0), 20(8-0) field 9 area measuring 67 Kanals 18 Marlas to the extent of 65/1358 share i.e. 3 Kanals 5 Marlas
Total Area		320 Kanals 12 Marlas	
Total		320 Kanals 12 Marlas (40.075 Acres)	

M/s DLF Home Developers Ltd. is proceeding to institute appropriate civil and criminal action in respect of aforesaid illegal acts against the abovementioned Landowners/individuals/entities and their officials as well as erring officials of the Bank. General Public is hereby cautioned to desist from entering into any transaction of any nature pertaining to the aforesaid land and part thereof. Any person dealing with the abovementioned entities/persons in relation to land referred to above shall do so at his own risk and peril.

M/s DLF Home Developers Ltd.

